



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-29072023-247696
CG-UP-E-29072023-247696

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3234]
No. 3234]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2023/श्रावण 5, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2023/SHRAVANA 5, 1945

रेल मंत्रालय

(पूर्वोत्तर रेलवे/निर्माण संगठन)

(कार्यालय मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर)

अधिसूचना

गोरखपुर, 27 जुलाई, 2023

का.आ. 3380(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोकप्रयोजन के लिए, वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इसमें उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है। विशेष रेल परियोजना अर्थात् सहजनवाँ-दोहरीघाट नई रेल लाईन कार्य (81.17 किमी०) के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले के सहजनवाँ तहसील (11.00 किमी०) में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं०सं०), जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और कोई जॉच, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ (3) के अनुसार धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि की अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपयुक्त कार्यालय में उसका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में विशेष रेल परियोजना सहजनवाँ-दोहरीघाट के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला गोरखपुर, राज्य उत्तर प्रदेश

क्र. सं.	जिला	गांव का नाम	तहसील	प्लॉट की संख्या	भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	399	0.0176
2	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	544	0.0347
3	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	353	0.1481
4	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	352	0.0591
5	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	355	0.0048
6	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	356	0.0389
7	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	357	0.0237
8	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	358	0.0051
9	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	359	0.0372
10	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	360	0.0405
11	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	361	0.0042
12	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	362	0.027
13	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	376	0.0014
14	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	363	0.0061
15	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	372	0.1692
16	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	377	0.1415
17	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	370	0.004
18	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	378	0.0085
19	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	381	0.0376
20	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	382	0.022
21	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	383	0.0201
22	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	384	0.0678
23	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	389	0.0756
24	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	388	0.0833
25	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	390	0.024
26	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	472	0.0261
27	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	471	0.0676
28	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	483	0.0056
30	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	484	0.0656
31	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	485	0.004
32	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	488	0.013
33	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	489	0.0177
34	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	490	0.0167
35	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	491	0.0048
36	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	493	0.1473
37	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	494	0.1305
38	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	495	0.0623
39	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	502	0.0144
40	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	503	0.0056

41	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	525	0.0233
42	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	496	0.0307
43	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	497	0.001
44	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	498	0.0033
45	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	526	0.0891
46	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	527	0.0891
47	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	532	0.09
48	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	533	0.09
49	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	534	0.0036
50	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	536	0.0026
51	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	537	0.0137
52	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	538	0.0208
53	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	539	0.0318
54	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	540	0.0229
55	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	541	0.0192
56	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	542	0.0012
57	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	550	0.0087
58	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	551	0.048
59	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	550	0.0087
60	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	554	0.006
61	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	553	0.0078
63	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	555	0.0081
64	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	556	0.4218
65	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	557	0.0182
66	गोरखपुर	सहजनवाँ	उज्जीखोर	559	0.055
				कुल एरिया	2.9494
1	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	3	0.137
2	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	4	0.1198
3	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	5	0.0334
4	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	27	0.0102
5	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	28	0.0531
6	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	35	0.0229
7	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	34	0.0037
8	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	26	0.0156
9	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	31	0.0289
10	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	32	0.1182
11	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	33	0.0382
12	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	189	0.1386
13	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	196	0.0263
14	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	183	0.0042
15	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	180	0.0059
16	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	193	0.073
17	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	195	0.0087
18	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	165	0.1014
19	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	201	0.3824
20	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	202	0.0061
21	गोरखपुर	सहजनवाँ	रहिमाबाद	205	0.0072

22	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	207	0.0065
23	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	182	0.0016
24	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	206	0.1416
25	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	204	0.1413
26	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	336	0.001
27	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	341	0.0672
29	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	343	0.0091
30	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	344	0.0075
31	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	346	0.1887
32	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	350	0.1221
33	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	351व	0.0351
34	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	352	0.0686
35	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	353	0.0507
36	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	354	0.0376
37	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	355	0.0534
38	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	354/367	0.0376
39	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	356	0.0199
40	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	358	0.0359
41	गोरखपुर	सहजनवॉ	रहिमाबाद	365	0.0245
				कुल एरिया	2.4036
1	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	17	0.0137
2	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	18	0.0865
3	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	1	0.0721
4	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	2	0.0075
5	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	21	0.148
6	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	22	0.029
7	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	23	0.014
8	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	20अ	0.1641
9	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	32	0.05
10	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	36	0.1234
11	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	37	0.0505
12	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	38	0.2453
13	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	39	0.0262
14	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	46	0.1095
15	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	299	0.1008
16	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	298	0.045
17	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	297	0.0245
18	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	296	0.0809
19	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	295	0.0206
20	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	294	0.0032
21	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	291	0.0571
22	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	290	0.1643
23	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	288	0.0935
24	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	287	0.049
25	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	289	0.4935
26	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	305	0.5321
27	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	306	0.0802

28	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	308	0.1656
29	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	309	0.2148
30	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	310	0.2164
31	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	311मि	1.0892
32	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	374व	0.3311
33	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	376	0.086
34	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	364व	0.4461
35	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	349	0.1045
36	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	316	0.024
37	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	320	0.0216
38	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	319	0.0239
39	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	324	0.0102
40	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	325	0.0763
41	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	373	0.391
42	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	369	0.0048
43	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	367	0.0887
44	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	368	0.0231
45	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	266	0.2189
46	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	374	0.3311
47	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	375	0.1066
48	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	377	0.0531
49	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	364	0.4461
50	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	365	0.0385
51	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	366	0.2323
52	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	348	0.0837
53	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	340	0.0278
54	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	341	0.1367
55	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	341B	0.0946
56	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	346	0.1537
57	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	345	0.0642
58	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	344	0.0646
59	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	343	0.0617
60	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	342	0.1647
61	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	339	0.0986
62	गोरखपुर	सहजनवॉ	वनगाव	345	0.0642
				कुल एरिया	8.6433
1	गोरखपुर	सहजनवॉ	जोन्हिया	170	0.0536
2	गोरखपुर	सहजनवॉ	जोन्हिया	168	0.1486
3	गोरखपुर	सहजनवॉ	जोन्हिया	157	0.0598
4	गोरखपुर	सहजनवॉ	जोन्हिया	156	0.2499
5	गोरखपुर	सहजनवॉ	जोन्हिया	174	0.0284
6	गोरखपुर	सहजनवॉ	जोन्हिया	175	0.0412
7	गोरखपुर	सहजनवॉ	जोन्हिया	178	0.1318
8	गोरखपुर	सहजनवॉ	जोन्हिया	179	0.0969
9	गोरखपुर	सहजनवॉ	जोन्हिया	149	0.0532
10	गोरखपुर	सहजनवॉ	जोन्हिया	147	0.0464
11	गोरखपुर	सहजनवॉ	जोन्हिया	146	0.0421

12	गोरखपुर	सहजनवाँ	जोन्धिया	145	0.0013
13	गोरखपुर	सहजनवाँ	जोन्धिया	177	0.0052
				कुल एरिया	0.9585
1	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	1	0.0378
2	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	6	0.0748
3	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	7	0.4132
4	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	5	0.0348
5	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	15	0.1742
6	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	8	0.1061
7	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	16	0.0744
8	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	17	0.0965
9	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	10	0.047
10	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	11	0.3549
11	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	12	0.216
12	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	18	0.0842
13	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	13	0.3666
14	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	14	0.0513
15	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	19	0.0762
16	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	28	0.2834
17	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	24	0.019
18	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	25	0.3571
19	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	26	0.1232
20	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	46	0.0264
21	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	45	0.0199
22	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	44	0.0062
23	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	43	0.0044
24	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	42	0.003
25	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	41	0.0079
26	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	40	0.0017
27	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	27	0.4103
28	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	28	0.2834
29	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	29	0.0689
30	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	30	0.2972
31	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	31	0.0311
32	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	290	0.2678
33	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	291	0.0906
34	गोरखपुर	सहजनवाँ	हरिवंशपुर	289	0.11
				कुल एरिया	4.6193
1	गोरखपुर	सहजनवाँ	कटका	255	0.3294
2	गोरखपुर	सहजनवाँ	कटका	328	0.0138
3	गोरखपुर	सहजनवाँ	कटका	327	0.1602
4	गोरखपुर	सहजनवाँ	कटका	326	0.2252
5	गोरखपुर	सहजनवाँ	कटका	325	0.0029
6	गोरखपुर	सहजनवाँ	कटका	370	0.07435
7	गोरखपुर	सहजनवाँ	कटका	371	0.1917
8	गोरखपुर	सहजनवाँ	कटका	373	0.0751
9	गोरखपुर	सहजनवाँ	कटका	374	0.1292

10	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	332	0.0171
11	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	333	0.0236
12	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	313	0.0365
13	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	314	0.1428
14	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	319	0.1259
15	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	318	0.04
16	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	300	0.03
17	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	120	0.0396
18	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	121	0.0604
19	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	124	0.0088
20	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	130	0.0072
21	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	131	0.0372
22	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	132	0.0645
23	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	133	0.0726
24	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	134	0.1101
25	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	135	0.1808
26	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	104	0.0093
27	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	103	0.0836
28	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	102	0.0642
29	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	97	0.1213
30	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	98	0.0086
31	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	99	0.0065
32	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	44	0.0124
33	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	43	0.0661
34	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	41	0.0104
35	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	40	0.0616
36	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	38	0.1094
37	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	39	0.0013
38	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	36	0.0564
39	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	54	0.0059
40	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	55	0.1127
41	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	56	0.0594
42	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	57	0.0091
43	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	11	0.063
44	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	13	0.0462
45	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	10	0.0158
46	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	9	0.0132
47	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	8	0.1516
48	गोरखपुर	सहजनवॉ	कटका	5	0.0655
				कुल एरिया	3.351
1	गोरखपुर	सहजनवॉ	बेलवाडाडी	210	0.0971
2	गोरखपुर	सहजनवॉ	बेलवाडाडी	212	0.0406
3	गोरखपुर	सहजनवॉ	बेलवाडाडी	214	0.1506
4	गोरखपुर	सहजनवॉ	बेलवाडाडी	215	0.0246
5	गोरखपुर	सहजनवॉ	बेलवाडाडी	203	0.0171
6	गोरखपुर	सहजनवॉ	बेलवाडाडी	202	0.1533
7	गोरखपुर	सहजनवॉ	बेलवाडाडी	199	0.0902

8	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	217	0.0015
9	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	216	0.1076
10	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	201	0.0052
11	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	200	0.0144
12	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	197	0.0007
13	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	195	0.0048
14	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	196	0.0992
15	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	193	0.0474
16	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	192	0.0052
17	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	187	0.0052
18	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	186	0.0314
19	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	166	0.0013
20	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	185	0.0343
21	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	184	0.0223
22	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	183	0.0805
23	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	180	0.0076
24	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	181	0.0893
25	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	167	0.0231
26	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	177	0.0064
27	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	159	0.0795
28	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	158	0.0519
29	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	157	0.0371
30	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	156	0.0409
31	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	155	0.0925
32	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	150	0.0353
33	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	149	0.0146
34	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	15	0.0591
35	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	14	0.1042
36	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	16	0.0201
37	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	12	0.0706
38	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	11	0.0085
39	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	7	0.0091
40	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	9	0.0345
41	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	10	0.0857
42	गोरखपुर	सहजनवाँ	बेलवाडाडी	299	0.003
				कुल एरिया	1.9075
1	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	660	0.0469
2	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	270	0.0323
3	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	271	0.0307
4	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	272	0.0374
5	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	273	0.0191
6	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	274	0.004
7	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	269	0.0955
8	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	268	0.1583
9	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	266	0.0785
10	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	265	0.0151
11	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	95	0.0034

12	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	99	0.0027
13	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	100	0.0576
14	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	101	0.208
15	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	105	0.0062
16	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	106	0.0108
17	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	107	0.0218
18	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	92	0.1731
19	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	83	0.0341
20	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	82	0.0064
21	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	84	0.0126
22	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	81	0.0905
23	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	80	0.0144
24	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	900/73	0.1202
25	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	79	0.0078
26	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	72	0.0054
27	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	73	0.043
28	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	888/69	0.033
29	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	51	0.2181
30	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	20	0.1443
31	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	19	0.0447
32	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	18	0.031
33	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	7	0.0108
34	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	6	0.0561
35	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	5	0.0503
36	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	8	0.0114
37	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	11	0.0001
38	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	4	0.1168
39	गोरखपुर	सहजनवाँ	कैली	3	0.0061
				कुल एरिया	2.0585
1	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	9मि	0.1244
2	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	8मि.	0.0855
3	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	7	0.4886
4	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	6	0.0345
5	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	33	0.0871
6	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	50	0.0367
7	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	51	0.1064
8	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	52	0.0293
9	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	53	0.2565
10	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	86	0.0234
11	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	54	0.0994
12	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	55	0.0853
13	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	85	0.04
14	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	84व	0.0562
15	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	83	0.1281
16	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	82	0.0224
17	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	83	0.0002
18	गोरखपुर	सहजनवाँ	भपसा	78ख	0.2664

19	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	76	0.0111
20	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	143	0.0477
21	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	142ख	0.1256
22	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	168	0.0368
23	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	166	0.0548
24	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	165	0.0423
25	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	164	0.0834
26	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	161मि	0.1063
27	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	159	0.0615
28	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	157	0.2437
29	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	296	0.0031
30	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	297मि	0.038
31	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	299	0.0353
32	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	300	0.1617
33	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	301	0.0078
34	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	303	0.0032
35	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	304	0.2109
36	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	305ख	0.1546
37	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	306	0.1206
38	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	288	0.0291
39	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	313	0.0002
40	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	312	0.1488
41	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	314	0.0051
42	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	315	0.0137
43	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	316	0.0137
44	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	317	0.0767
45	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	337	0.0292
46	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	336	0.1429
47	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	335	0.0369
47	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	338	0.0862
48	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	339	0.0155
49	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	334	0.0221
50	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	333	0.2586
51	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	332	0.0247
52	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	360	0.0934
53	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	361	0.0952
54	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	362	0.2062
55	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	363	0.0069
56	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	364	0.0215
57	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	365	0.1169
58	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	366	0.0595
59	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	367	0.0208
60	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	368	0.0293
59	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	369	0.031
60	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	372	0.0011
	गोरखपुर	सहजनवॉ	भपसा	कुल एरिया	5.1042
1	गोरखपुर	सहजनवॉ	सहजना	58	0.0834

2	गोरखपुर	सहजनवॉ	सहजना	59	0.0227
3	गोरखपुर	सहजनवॉ	सहजना	68	0.0933
4	गोरखपुर	सहजनवॉ	सहजना	78	1.6634
5	गोरखपुर	सहजनवॉ	सहजना	77	0.3451
6	गोरखपुर	सहजनवॉ	सहजना	195	0.1397
7	गोरखपुर	सहजनवॉ	सहजना	192B	0.0095
8	गोरखपुर	सहजनवॉ	सहजना	197	0.0752
9	गोरखपुर	सहजनवॉ	सहजना	198	0.0241
10	गोरखपुर	सहजनवॉ	सहजना	196	0.3814
11	गोरखपुर	सहजनवॉ	सहजना	206	0.0467
12	गोरखपुर	सहजनवॉ	सहजना	199	0.3482
				कुल एरिया	3.2326
1	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	505	0.1159
2	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	504	0.1381
3	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	509	0.0475
4	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	508	0.0177
5	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	510	0.1193
6	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	511	0.0091
7	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	512मि.	0.0385
8	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	498	0.0218
9	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	416	0.0073
10	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	514	0.0181
11	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	497मि.	0.1069
12	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	494	0.0126
13	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	485	0.012
14	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	493	0.1516
15	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	480	0.1727
16	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	481	0.0238
17	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	487	0.1682
18	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	443	0.0478
19	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	486	0.1562
20	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	457	0.011
21	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	460	0.0725
22	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	458	0.1567
23	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	457	0.1238
24	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	448	0.0399
25	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	454	0.0598
26	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	450	0.2265
27	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	102	0.0219
28	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	451	0.035
29	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	446बी	0.0102
30	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	78	0.2379
31	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	79 मि	0.0687
32	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	84	0.0271
33	गोरखपुर	सहजनवॉ	अड़िलापार	446A	0.011

34	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	94	0.0005
35	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	93	0.0012
36	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	85	0.2614
37	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	89	0.0676
38	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	88	0.0855
39	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	87 मि	0.1632
40	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	50	0.0831
41	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	52	0.0351
42	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	55	0.0261
43	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	56	0.0262
44	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	57	0.0317
45	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	58	0.0315
46	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	59	0.002
47	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	54	0.0935
48	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	53 मि	0.0319
49	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	51	0.0243
50	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	49	0.03
51	गोरखपुर	सहजनवाँ	अडिलापार	216	0.0243
				कुल एरिया	3.506
1	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	79	0.0644
2	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	80	0.0213
3	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	85मि	0.2052
4	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	84	0.0667
5	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	127	0.1872
6	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	90	0.0031
7	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	91	0.0448
8	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	92	0.246
9	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	97	0.0108
10	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	93	0.1492
11	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	94	0.1004
12	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	96 मि	0.116
13	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	95	0.0002
14	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	122	0.0008
15	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	123	0.0156
16	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	115	0.0458
17	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	118	0.3124
18	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	38	0.003
19	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	37	0.0115
20	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	36	0.0172
21	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	35	0.0609
22	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	33	0.0258
23	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	32	0.0113
24	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	31	0.0181
25	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	30	0.0211

26	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	29	0.0024
27	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	28	0.0465
28	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	27	0.02
29	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	26	0.0174
30	गोरखपुर	सहजनवाँ	तिनहरा	25	0.031
				कुल एरिया	1.8764
1	गोरखपुर	सहजनवाँ	वनौडा	372	0.0239
2	गोरखपुर	सहजनवाँ	वनौडा	371	0.2743
3	गोरखपुर	सहजनवाँ	वनौडा	347	0.0022
4	गोरखपुर	सहजनवाँ	वनौडा	348	0.0023
5	गोरखपुर	सहजनवाँ	वनौडा	349	0.0117
6	गोरखपुर	सहजनवाँ	वनौडा	351	0.0603
7	गोरखपुर	सहजनवाँ	वनौडा	350	0.0113
8	गोरखपुर	सहजनवाँ	वनौडा	356	0.166
9	गोरखपुर	सहजनवाँ	वनौडा	355	0.0023
10	गोरखपुर	सहजनवाँ	वनौडा	357	0.0243
11	गोरखपुर	सहजनवाँ	वनौडा	358	0.085
12	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	359	0.1473
13	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	339	0.0097
14	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	334	0.0159
15	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	335	0.15
16	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	338	0.022
17	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	336	0.0954
18	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	316	0.0102
19	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	327	0.0023
20	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	299	0.046
21	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	304	0.1741
22	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	303	0.0251
23	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	305	0.1272
24	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	297	0.0102
25	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	296	0.1104
26	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	291	0.009
27	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	294	0.0009
28	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	293	0.0142
29	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	292	0.2362
30	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	288	0.1087
31	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	281	0.3123
32	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	280	0.0463
33	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	271	0.0108
34	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	279	0.004
35	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	264	0.2203
36	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	263	0.0033
37	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	262	0.1271
38	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	261	0.2824
39	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	260	0.148

40	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	259	0.1066
41	गोरखपुर	सहजनवाँ	वानौडा	214	0.0424
				कुल एरिया	3.2818
				कुल सम्पूर्ण योग	43.8921

[मि. सं. डब्लू/कॉन/247/यसडब्लूए-डीआईटी/डब्लू-1]

श्रीश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(North Eastern Railway/Construction Organization)

(Office of Chief Administrative Officer North Eastern Railway, Gorakhpur)

NOTIFICATION

Gorakhpur, the 27th July, 2023

S.O. 3380 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and railway (amendment) act 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, Shajanwa-Dohrighat New railway line work (81.17 Km) in the Tehsil Sahjanwa (11.00 km) of Gorakhpur district in the state of Uttar Pradesh. , hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Special Land Acquisition officer (Joint Organization), Gorakhpur** Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the district Gorakhpur for Special Railway Project, Shajanwa-Dohrighat New railway line work (81.17 Km) in the State of Uttar Pradesh.

District Gorakhpur, State Uttar Pradesh

Sr. No.	District	Tehsil	Village Name	Plot No.	Area proposed for land acquisition (in hect.)
1	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	399	0.0176
2	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	544	0.0347
3	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	353	0.1481
4	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	352	0.0591
5	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	355	0.0048
6	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	356	0.0389
7	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	357	0.0237
8	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	358	0.0051
9	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	359	0.0372

10	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	360	0.0405
11	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	361	0.0042
12	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	362	0.0270
13	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	376	0.0014
14	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	363	0.0061
15	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	372	0.1692
16	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	377	0.1415
17	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	370	0.0040
18	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	378	0.0085
19	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	381	0.0376
20	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	382	0.0220
21	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	383	0.0201
22	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	384	0.0678
23	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	389	0.0756
24	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	388	0.0833
25	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	390	0.0240
26	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	472	0.0261
27	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	471	0.0676
28	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	483	0.0056
29	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	501	0.1012
30	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	484	0.0656
31	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	485	0.0040
32	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	488	0.0130
33	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	489	0.0177
34	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	490	0.0167
35	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	491	0.0048
36	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	493	0.1473
37	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	494	0.1305
38	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	495	0.0623
39	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	502	0.0144
40	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	503	0.0056
41	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	525	0.0233
42	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	496	0.0307
43	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	497	0.0010
44	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	498	0.0033
45	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	526	0.0891
46	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	527	0.0891
47	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	532	0.0900
48	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	533	0.0900
49	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	534	0.0036
50	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	536	0.0026
51	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	537	0.0137
52	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	538	0.0208
53	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	539	0.0318
54	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	540	0.0229

55	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	541	0.0192
56	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	542	0.0012
57	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	550	0.0087
58	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	551	0.0480
59	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	550	0.0087
60	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	554	0.0060
61	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	553	0.0078
62	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	552	0.0499
63	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	555	0.0081
64	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	556	0.4218
65	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	557	0.0182
66	Gorakhpur	Sahjanwa	Ujjikhor	559	0.0550
				NET AREA	2.9494
1	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	3	0.1370
2	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	4	0.1198
3	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	5	0.0334
4	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	27	0.0102
5	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	28	0.0531
6	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	35	0.0229
7	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	34	0.0037
8	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	26	0.0156
9	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	31	0.0289
10	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	32	0.1182
11	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	33	0.0382
12	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	189	0.1386
13	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	196	0.0263
14	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	183	0.0042
15	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	180	0.0059
16	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	193	0.0730
17	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	195	0.0087
18	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	165	0.1014
19	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	201	0.3824
20	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	202	0.0061
21	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	205	0.0072
22	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	207	0.0065
23	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	182	0.0016
24	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	206	0.1416
25	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	204	0.1413
26	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	336	0.0010
27	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	341	0.0672
28	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	342	0.0190
29	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	343	0.0091
30	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	344	0.0075
31	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	346	0.1887
32	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	350	0.1221

33	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	351व	0.0351
34	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	352	0.0686
35	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	353	0.0507
36	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	354	0.0376
37	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	355	0.0534
38	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	354/367	0.0376
39	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	356	0.0199
40	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	358	0.0359
41	Gorakhpur	Sahjanwa	Rahimabad	365	0.0245
				NET AREA	2.4036
1	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	17	0.0137
2	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	18	0.0865
3	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	1	0.0721
4	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	2	0.0075
5	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	21	0.1480
6	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	22	0.0290
7	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	23	0.0140
8	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	203अ	0.1641
9	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	32	0.0500
10	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	36	0.1234
11	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	37	0.0505
12	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	38	0.2453
13	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	39	0.0262
14	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	46	0.1095
15	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	299	0.1008
16	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	298	0.0450
17	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	297	0.0245
18	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	296	0.0809
19	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	295	0.0206
20	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	294	0.0032
21	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	291	0.0571
22	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	290	0.1643
23	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	288	0.0935
24	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	287	0.0490
25	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	289	0.4935
26	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	305	0.5321
27	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	306	0.0802
28	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	308	0.1656
29	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	309	0.2148
30	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	310	0.2164
31	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	311मि	1.0892
32	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	374व	0.3311
33	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	376	0.0860

34	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	364ढ	0.4461
35	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	349	0.1045
36	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	316	0.0240
37	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	320	0.0216
38	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	319	0.0239
39	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	324	0.0102
40	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	325	0.0763
41	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	373	0.3910
42	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	369	0.0048
43	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	367	0.0887
44	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	368	0.0231
45	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	266	0.2189
46	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	374	0.3311
47	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	375	0.1066
48	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	377	0.0531
49	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	364	0.4461
50	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	365	0.0385
51	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	366	0.2323
52	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	348	0.0837
53	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	340	0.0278
54	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	341	0.1367
55	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	341B	0.0946
56	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	346	0.1537
57	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	345	0.0642
58	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	344	0.0646
59	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	343	0.0617
60	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	342	0.1647
61	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	339	0.0986
62	Gorakhpur	Sahjanwa	Bangawn	345	0.0642
				NET AREA	8.6433
1	Gorakhpur	Sahjanwa	Jhonhiya	170	0.0536
2	Gorakhpur	Sahjanwa	Jhonhiya	168	0.1486
3	Gorakhpur	Sahjanwa	Jhonhiya	157	0.0598
4	Gorakhpur	Sahjanwa	Jhonhiya	156	0.2499
5	Gorakhpur	Sahjanwa	Jhonhiya	174	0.0284
6	Gorakhpur	Sahjanwa	Jhonhiya	175	0.0412
7	Gorakhpur	Sahjanwa	Jhonhiya	178	0.1318
8	Gorakhpur	Sahjanwa	Jhonhiya	179	0.0969
9	Gorakhpur	Sahjanwa	Jhonhiya	149	0.0532
10	Gorakhpur	Sahjanwa	Jhonhiya	147	0.0464
11	Gorakhpur	Sahjanwa	Jhonhiya	146	0.0421
12	Gorakhpur	Sahjanwa	Jhonhiya	145	0.0013
13	Gorakhpur	Sahjanwa	Jhonhiya	177	0.0052
				NET AREA	0.9585

1	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	1	0.0378
2	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	6	0.0748
3	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	7	0.4132
4	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	5	0.0348
5	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	15	0.1742
6	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	8	0.1061
7	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	16	0.0744
8	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	17	0.0965
9	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	10	0.0470
10	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	11	0.3549
11	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	12	0.2160
12	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	18	0.0842
13	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	13	0.3666
14	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	14	0.0513
15	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	19	0.0762
16	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	28	0.2834
17	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	24	0.0190
18	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	25	0.3571
19	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	26	0.1232
20	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	46	0.0264
21	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	45	0.0199
22	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	44	0.0062
23	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	43	0.0044
24	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	42	0.0030
25	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	41	0.0079
26	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	40	0.0017
27	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	27	0.4103
28	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	28	0.2834
29	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	29	0.0689
30	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	30	0.2972
31	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	31	0.0311
32	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	290	0.2678
33	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	291	0.0906
34	Gorakhpur	Sahjanwa	Harivanspur	289	0.1100
				NET AREA	4.6193
1	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	255	0.3294
2	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	328	0.0138
3	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	327	0.1602
4	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	326	0.2252
5	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	325	0.0029
6	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	370	0.0735
7	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	371	0.1917
8	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	373	0.0751
9	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	374	0.1292
10	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	332	0.0171

11	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	333	0.0236
12	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	313	0.0365
13	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	314	0.1428
14	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	319	0.1259
15	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	318	0.0400
16	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	300	0.0300
17	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	120	0.0396
18	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	121	0.0604
19	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	124	0.0088
20	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	130	0.0072
21	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	131	0.0372
22	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	132	0.0645
23	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	133	0.0726
24	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	134	0.1101
25	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	135	0.1808
26	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	104	0.0093
27	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	103	0.0836
28	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	102	0.0642
29	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	97	0.1213
30	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	98	0.0086
31	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	99	0.0065
32	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	44	0.0124
33	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	43	0.0661
34	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	41	0.0104
35	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	40	0.0616
36	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	38	0.1094
37	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	39	0.0013
38	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	36	0.0564
39	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	54	0.0059
40	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	55	0.1127
41	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	56	0.0594
42	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	57	0.0091
43	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	11	0.0630
44	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	13	0.0462
45	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	10	0.0158
46	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	9	0.0132
47	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	8	0.1516
48	Gorakhpur	Sahjanwa	Katka	5	0.0655
				NET AREA	3.3510
1	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	210	0.0971
2	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	212	0.0406
3	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	214	0.1506
4	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	215	0.0246
5	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	203	0.0171
6	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	202	0.1533

7	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	199	0.0902
8	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	217	0.0015
9	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	216	0.1076
10	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	201	0.0052
11	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	200	0.0144
12	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	197	0.0007
13	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	195	0.0048
14	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	196	0.0992
15	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	193	0.0474
16	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	192	0.0052
17	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	187	0.0052
18	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	186	0.0314
19	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	166	0.0013
20	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	185	0.0343
21	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	184	0.0223
22	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	183	0.0805
23	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	180	0.0076
24	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	181	0.0893
25	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	167	0.0231
26	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	177	0.0064
27	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	159	0.0795
28	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	158	0.0519
29	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	157	0.0371
30	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	156	0.0409
31	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	155	0.0925
32	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	150	0.0353
33	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	149	0.0146
34	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	15	0.0591
35	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	14	0.1042
36	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	16	0.0201
37	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	12	0.0706
38	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	11	0.0085
39	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	7	0.0091
40	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	9	0.0345
41	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	10	0.0857
42	Gorakhpur	Sahjanwa	Belwadaadi	299	0.0030
				NET AREA	1.9075
1	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	660	0.0469
2	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	270	0.0323
3	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	271	0.0307
4	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	272	0.0374
5	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	273	0.0191
6	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	274	0.0040
7	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	269	0.0955
8	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	268	0.1583

9	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	266	0.0785
10	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	265	0.0151
11	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	95	0.0034
12	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	99	0.0027
13	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	100	0.0576
14	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	101	0.2080
15	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	105	0.0062
16	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	106	0.0108
17	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	107	0.0218
18	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	92	0.1731
19	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	83	0.0341
20	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	82	0.0064
21	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	84	0.0126
22	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	81	0.0905
23	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	80	0.0144
24	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	900/73	0.1202
25	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	79	0.0078
26	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	72	0.0054
27	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	73	0.0430
28	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	888/69	0.0330
29	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	51	0.2181
30	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	20	0.1443
31	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	19	0.0447
32	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	18	0.0310
33	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	7	0.0108
34	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	6	0.0561
35	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	5	0.0503
36	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	8	0.0114
37	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	11	0.0001
38	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	4	0.1168
39	Gorakhpur	Sahjanwa	Keli	3	0.0061
				NET AREA	2.0585
1	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	9मि	0.1244
2	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	8मि.	0.0855
3	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	7	0.4886
4	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	6	0.0345
5	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	33	0.0871
6	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	50	0.0367
7	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	51	0.1064
8	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	52	0.0293
9	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	53	0.2565
10	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	86	0.0234
11	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	54	0.0994
12	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	55	0.0853

13	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	85	0.0400
14	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	84व	0.0562
15	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	83	0.1281
16	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	82	0.0224
17	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	83	0.0002
18	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	78ख	0.2664
19	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	76	0.0111
20	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	143	0.0477
21	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	142ख	0.1256
22	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	168	0.0368
23	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	166	0.0548
24	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	165	0.0423
25	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	164	0.0834
26	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	161मि	0.1063
27	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	159	0.0615
28	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	157	0.2437
29	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	296	0.0031
30	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	297मि	0.0380
31	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	299	0.0353
32	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	300	0.1617
33	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	301	0.0078
34	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	303	0.0032
35	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	304	0.2109
36	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	305ख	0.1546
37	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	306	0.1206
38	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	288	0.0291
39	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	313	0.0002
40	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	312	0.1488
41	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	314	0.0051
42	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	315	0.0137
43	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	316	0.0137
44	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	317	0.0767
45	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	337	0.0292
46	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	336	0.1429
47	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	335	0.0369
47	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	338	0.0862
48	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	339	0.0155
49	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	334	0.0221
50	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	333	0.2586
51	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	332	0.0247
52	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	360	0.0934
53	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	361	0.0952
54	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	362	0.2062

55	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	363	0.0069
56	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	364	0.0215
57	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	365	0.1169
58	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	366	0.0595
59	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	367	0.0208
60	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	368	0.0293
59	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	369	0.0310
60	Gorakhpur	Sahjanwa	Bhapsa	372	0.0011
				NET AREA	5.1042
1	Gorakhpur	Sahjanwa	Sahjna	58	0.0834
2	Gorakhpur	Sahjanwa	Sahjna	59	0.0227
3	Gorakhpur	Sahjanwa	Sahjna	68	0.0933
4	Gorakhpur	Sahjanwa	Sahjna	78	1.6634
5	Gorakhpur	Sahjanwa	Sahjna	77	0.3451
6	Gorakhpur	Sahjanwa	Sahjna	195	0.1397
7	Gorakhpur	Sahjanwa	Sahjna	192B	0.0095
8	Gorakhpur	Sahjanwa	Sahjna	197	0.0752
9	Gorakhpur	Sahjanwa	Sahjna	198	0.0241
10	Gorakhpur	Sahjanwa	Sahjna	196	0.3814
11	Gorakhpur	Sahjanwa	Sahjna	206	0.0467
12	Gorakhpur	Sahjanwa	Sahjna	199	0.3482
				NET AREA	3.2326
1	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	505	0.1159
2	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	504	0.1381
3	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	509	0.0475
4	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	508	0.0177
5	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	510	0.1193
6	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	511	0.0091
7	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	512मि.	0.0385
8	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	498	0.0218
9	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	416	0.0073
10	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	514	0.0181
11	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	497मि.	0.1069
12	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	494	0.0126
13	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	485	0.0120
14	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	493	0.1516
15	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	480	0.1727
16	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	481	0.0238
17	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	487	0.1682
18	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	443	0.0478
19	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	486	0.1562
20	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	457	0.0110
21	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	460	0.0725
22	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	458	0.1567

23	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	457	0.1238
24	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	448	0.0399
25	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	454	0.0598
26	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	450	0.2265
27	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	102	0.0219
28	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	451	0.0350
29	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	446B	0.0102
30	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	78	0.2379
31	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	79fe.	0.0687
32	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	84	0.0271
33	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	446A	0.0110
34	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	94	0.0005
35	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	93	0.0012
36	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	85	0.2614
37	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	89	0.0676
38	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	88	0.0855
39	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	87fe.	0.1632
40	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	50	0.0831
41	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	52	0.0351
42	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	55	0.0261
43	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	56	0.0262
44	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	57	0.0317
45	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	58	0.0315
46	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	59	0.0020
47	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	54	0.0935
48	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	53fe.	0.0319
49	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	51	0.0243
50	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	49	0.0300
51	Gorakhpur	Sahjanwa	Adilapar	216	0.0243
				NET AREA	3.5060
1	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	79	0.0644
2	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	80	0.0213
3	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	85मि	0.2052
4	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	84	0.0667
5	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	127	0.1872
6	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	90	0.0031
7	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	91	0.0448
8	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	92	0.2460
9	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	97	0.0108
10	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	93	0.1492
11	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	94	0.1004
12	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	96मि	0.1160
13	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	95	0.0002
14	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	122	0.0008

15	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	123	0.0156
16	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	115	0.0458
17	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	118	0.3124
18	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	38	0.0030
19	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	37	0.0115
20	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	36	0.0172
21	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	35	0.0609
22	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	33	0.0258
23	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	32	0.0113
24	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	31	0.0181
25	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	30	0.0211
26	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	29	0.0024
27	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	28	0.0465
28	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	27	0.0200
29	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	26	0.0174
30	Gorakhpur	Sahjanwa	Teenhara	25	0.0310
				NET AREA	1.8764
1	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	372	0.0239
2	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	371	0.2743
3	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	347	0.0022
4	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	348	0.0023
5	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	349	0.0117
6	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	351	0.0603
7	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	350	0.0113
8	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	356	0.1660
9	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	355	0.0023
10	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	357	0.0243
11	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	358	0.0850
12	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	359	0.1473
13	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	339	0.0097
14	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	334	0.0159
15	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	335	0.1500
16	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	338	0.0220
17	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	336	0.0954
18	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	316	0.0102
19	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	327	0.0023
20	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	299	0.0460
21	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	304	0.1741
22	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	303	0.0251
23	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	305	0.1272
24	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	297	0.0102
25	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	296	0.1104
26	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	291	0.0090
27	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	294	0.0009
28	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	293	0.0142

29	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	292	0.2362
30	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	288	0.1087
31	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	281	0.3123
32	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	280	0.0463
33	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	271	0.0108
34	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	279	0.0040
35	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	264	0.2203
36	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	263	0.0033
37	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	262	0.1271
38	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	261	0.2824
39	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	260	0.1480
40	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	259	0.1066
41	Gorakhpur	Sahjanwa	Banoda	214	0.0424
				NET AREA	3.2818
			GRAND TOTAL		43.8922

[F. No. W/Con./247/SWA-DIT/W-1]

SHRISH CHANDRA SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer/Construction